



फैमिली कोर्ट (पारिवारिक न्यायालय) में जाने पर क्या अपेक्षा करें

अलग होने या पारिवारिक हालातों में बदलाव के बाद फैमिली कोर्ट जाना तनावपूर्ण हो सकता है। पहले अपने वकील या kaiārahi (फैमिली कोर्ट नेविगेटर या संचालक) से बात करना सहायक हो सकता है। आप kaiārahi (फैमिली कोर्ट नेविगेटर या संचालक) से कैसे संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी पिछले पृष्ठ पर प्राप्त करें।

कोर्ट (न्यायालय) के लिए तैयारी करना

कोर्ट जाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

- चाइल्डकेयर (बच्चों की देखभाल) का प्रबंध करें
कोर्ट चाइल्डकेयर (बच्चों की देखभाल) प्रदान नहीं करता है, इसलिए आपको इसकी व्यवस्था करने की जरूरत होगी।
- यदि आपको दुभाषिण की जरूरत है तो कोर्ट को इस बारे में सूचित करें
यदि आपको Te Reo Māori (माओरी भाषा) और न्यूज़ीलैंड साइन लैंग्वेज (सांकेतिक भाषा) सहित एक दुभाषिण की आवश्यकता है, तो अदालत को इस बारे में सूचित करें। कोर्ट कर्मचारी इसमें मदद कर सकते हैं।
- आप एक सपोर्ट पर्सन (सहायक व्यक्ति) ला सकते हैं
आपका सहायक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आपके साथ प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन यदि आप उन्हें कोर्टरूम (अदालत कक्ष) में उपस्थित चाहते हैं तो आपको जज (न्यायाधीश) से पूछने की आवश्यकता होगी। आपका वकील या कोर्ट कर्मचारी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं।
- कोर्टरूम में सुलभ प्रवेश द्वार और टैक्नालॉजी (तकनीक) कोर्ट में सुलभ प्रवेश द्वार, सुनने में सहायता की तकनीक और कोर्टरूम में वैकल्पिक बैठने की व्यवस्था है। यदि आपको सुगम्यता (प्रवेश आदि के लिए) सहायता की जरूरत है तो कोर्ट को बताएं ताकि वे सही व्यवस्था कर सकें।
- सभी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा अधिकारी
कोर्ट में सभी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा अधिकारी होते हैं यदि आपको सुरक्षा सहायता की आवश्यकता है, तो जैसे ही आप वहां पहुंचें, कोर्ट को इस बारे में सूचित करें। आप अपने वकील या कोर्ट के कर्मचारियों से भी बात कर सकते हैं।

कोर्ट पहुंचना

जब आप कोर्ट जाते हैं, तो आपको सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि आप मेटल डिटेक्टर (धातु की सूचना देने वाले यंत्र) से गुजरेंगे और आपकी व्यक्तिगत वस्तुओं की सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा जांच की जा सकती है। सुरक्षा या संरक्षा के लिए जोखिम वाली कोई भी चीज़ आपके पास से ली जा सकती है, और जाते समय आपको वापस की जा सकती है।

कोर्ट भवन में संकेत दिखाएंगे कि आपको कहाँ जाना है। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो आप फ्रंट काउंटर (सहायता काउंटर) से पूछ सकते हैं या कोर्ट कर्मचारी से बात कर सकते हैं।

कोर्टरूम में कौन होगा



कुछ मामलों में, दुभाषिण, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, बच्चे के वकील और मीडिया भी अदालत में हो सकते हैं।



कोर्टरूम में क्या होता है

फैमिली कोर्ट जनता के लिए बंद होता है। इसका अर्थ है कि केवल कॉन्फ्रेंस (सम्मेलन) या सुनवाई में शामिल लोग, या जिन्हें जज से अनुमति मिली है, वे ही इसमें शामिल हो सकते हैं।

आप आमतौर पर या तो किसी कॉन्फ्रेंस या सुनवाई के लिए कोर्ट में जा रहे होंगे।

जज मतभेद को दूर करने में मदद करेंगे

एक केस कॉन्फ्रेंस में, पालन-पोषण के बारे में मतभेद में शामिल सभी लोग अगले कदमों के बारे में बात करने के लिए जज और वकीलों से मिलेंगे।

एक समझौता सम्मेलन में, जज पालन-पोषण के बारे में मतभेद को दूर करने में शामिल सभी लोगों की मदद करेंगे।

फैसला जज करेंगे

एक सुनवाई अधिक औपचारिक होती है। पालन-पोषण के मतभेद के बारे में निर्णय लेने के लिए जज सबूतों को देखेंगे, उदाहरण के लिए शपथपत्र, या गवाहों से सुनेंगे।

जब आपकी बोलने की बारी आएगी तो जज इस बारे में आपको सूचित करेंगे। यदि आपका कोई वकील है, तो वे आपकी ओर से बोलेंगे बशर्ते कि आप कोई गवाही नहीं दे रहे हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि क्या हो रहा है। आप कोर्ट में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अपने वकील से बात करने की जरूरत है या जज से यह पूछने की जरूरत है कि आपकी बोलने की बारी कब है।

जज बताएंगे कि आगे क्या होगा

जब आपकी कॉन्फ्रेंस या सुनवाई समाप्त हो जाती है, तो जज बताएंगे कि आगे क्या होगा। इसका मतलब हो सकता है कि फिर दूसरे दिन कोर्ट में वापस आना।



आपको सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है

अगर आप या अन्य कोई व्यक्ति असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं

- अगर आप या अन्य कोई व्यक्ति तत्काल खतरे में है तो 111 पर फोन करें
- [justice.govt.nz/family-violence](https://www.justice.govt.nz/family-violence) वेबसाइट पर जाएं
- [areyouokay.org.nz](https://www.areyouokay.org.nz) वेबसाइट पर जाएं
- 'Are You OK (आर यू ओ के)' को 0800 456 45 नंबर पर मुफ्त फोन करें।

आप किसी भी समय कानूनी सलाह ले सकते हैं।

सैपरेशन या पारिवारिक परिस्थितियों में बदलाव का सामना करने के दौरान आपके लिए वकील से बात करना सहायक हो सकता है। यदि आप इस बारे में सुनिश्चित नहीं हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो अपने स्थानीय कम्युनिटी लॉ सेंटर जाएं या [communitylaw.org.nz](https://www.communitylaw.org.nz) वेबसाइट पर जाएं।

सहायता कहां से प्राप्त करें

आपके समुदाय में

पालन-पोषण के इंतजामों की व्यवस्था करते समय kaiārahi (पारिवारिक न्यायालय संचालक), फैमिली कोर्ट संयोजक और कोर्ट कर्मचारी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर आपको कानूनी सलाह नहीं दे सकते।

Kaiārahi आपको आपके इलाके में सामुदायिक सहायता सेवाओं से भी जोड़ सकते हैं।

संपर्क करें:

- अपने स्थानीय कोर्ट में जाएँ
- kaiarahi@justice.govt.nz को ईमेल करें
- मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस (न्याय मंत्रालय) को 0800 224 733 नंबर पर मुफ्त फोन करें

आपकी मदद करने के लिए संस्थाएं

सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो (नागरिक सलाह केंद्र)

वे आपके अधिकारों को समझने और फॉर्म भरने में आपकी मदद करते हैं।

- 0800 367 222 पर मुफ्त फोन करें
- cab.org.nz वेबसाइट पर जाएँ

कम्युनिटी लॉ सेंटर (सामुदायिक न्याय केन्द्र)

वे आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड में लोगों के लिए मुफ्त, गोपनीय आमने-सामने कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

communitylaw.org.nz पर जाएँ

फैमिली सर्विसिज़ डायरेक्टरी (परिवार सेवा निर्देशिका)

उनके पास सहायता सेवाओं की एक सूची है जो आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड में whānau (परिवार और मिलों) की मदद करती है। इन सेवाओं में हाउसिंग (आवास) से लेकर काउंसलिंग (परामर्श) तक शामिल हैं।

- मुफ्त फोन 0800 211 211
- familyservices.govt.nz/directory/ वेबसाइट पर जाएँ

सीसीएस डिसेबिलिटी एक्शन (सीसीएस विकलांगता कार्रवाई) वे विकलांग लोगों और उनके whānau (परिवार और दोस्तों) को जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं।

संपर्क करें:

- मुफ्त फोन 0800 227 200
- ईमेल info@ccsDisabilityAction.org.nz

मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज़ (जातीय समुदायों के लिए मंत्रालय)

उनके पास जातीय समुदायों की सहायता के लिए धार्मिक संगठनों सहित सहायता सेवाओं की एक सूची है।

- मुफ्त फोन 0800 656 656
- ethniccommunities.govt.nz वेबसाइट पर जाएँ

काउंसलिंग (परामर्श सेवा)

मानसिक स्वास्थ्य, या अन्य व्यक्तिगत मुद्दों पर पेशेवर समर्थन के लिए संपर्क करें:

- Need to Talk (नीड टू टॉक) – 1737 पर मुफ्त फोन या टैक्स्ट करें या 1737.org.nz पर जाएँ
- Lifeline (लाईफलाइन) – मुफ्त फोन 0800 543 354 या 4357 पर टैक्स्ट करें
- Skylight (स्काइलाईट) – मुफ्त फोन 0800 299 100 करें या skylight.org.nz वेबसाइट पर जाएँ

बच्चों और युवा लोगों के लिए

- What's Up (व्हाट्स अप) – मुफ्त फोन 0800 942 8787
- यूथलाईन – 0800 376 633 पर मुफ्त फोन करें या 234 पर टैक्स्ट करें

अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं

- areyouok.org.nz वेबसाइट पर जाएँ
- 'Are You OK (आर यू ओ के)' को 0800 456 450 नंबर पर मुफ्त फोन करें।



अधिक जानकारी के लिए

- justice.govt.nz/care-of-children वेबसाइट पर जाएँ
- मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस (न्याय मंत्रालय) को 0800 224 733 नंबर पर मुफ्त फोन करें